



## दवालिया और शोधन अक्षमता कोड

### चर्चा में क्यों?

दवालिया और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) के तहत अलग-अलग कारणों से कई मामलों में ऋण वसूली में देरी आ रही है।

### प्रमुख बदि

- एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड सहित कई मामलों में ऋण समाधान में दवालिया और शोधन अक्षमता कोड में नरिधारति समयसीमा से अधिक समय लग रहा है।
- ज्ञातव्य है कि IBC के तहत आने वाले मामलों को 180 दिनों में पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) होती है, जसि 90 दिनों तक तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह समयसीमा यह सुनिश्चति करने के लिये नरिधारति की गई थी कि गैर-नरिपादति परसिंपत्तियों (NPA) की वसूली समयबद्ध तरीके से हो और बैंक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की तनावग्रस्त परसिंपत्तियों की मात्रा को कम करने में सक्षम हों।

### गैर नरिपादति परसिंपत्तियाँ (Non-Performing Assets)

वत्तितीय संस्थानों से ऋण लेने वाला व्यक्ती जब 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में वफिल रहता है तो उसको दया गया ऋण 'गैर नरिपादति परसिंपत्ति' माना जाता है।

### आँकड़ें

- 31 मार्च, 2019 तक IBC के तहत रजिऑल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रहे कुल 1143 मामलों में से 548 मामलों में 180 दिन से अधिक समय लगा था।
- जो यह दरशाता है कि लगभग 48 प्रतिशत मामलों में 180 दिनों के भीतर ऋण समाधान की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
- कुल 362 मामले या CIRPs के अंतर्गत चल रहे 31.67 प्रतिशत मामलों में समयसीमा IBC में नरिधारति 270 दिनों की सीमा को पार कर गई।

### ऋण समाधान में देरी के कारण:

- टेकओवर कंपनियों के लिये उपयुक्त बोलियों का अभाव
- ऋणदाताओं के बीच मतभेद
- मौजूदा प्रमोटर्स और परचालन लेनदारों द्वारा उत्पन्न कानूनी चुनौतियाँ

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड सहित एनपीए के 12 बड़े मामले बैंकों ने वभिन्नि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) बेंचों को सौंपा।

इसके अंतर्गत अन्य पाँच बड़े मामलों में वसूली दर 17.11 प्रतिशत से लेकर 63.50 प्रतिशत रही है।

लगभग आधे मामलों में देरी के बावजूद IBC ने अब तक स्वीकृत 93 मामलों में वत्तितीय लेनदारों को 43 प्रतिशत तक की वसूली दर पेशकश की है।

जसिमें वत्तितीय लेनदारों ने 1,73,359 करोड़ रुपए के दावे में से 74,497 करोड़ रुपए की वसूली की।

कई मामलों में देरी के बावजूद ऋण वसूली हेतु मौजूदा न्यायाधिकरणों की प्रणाली और SARFAESI Act की तुलना में IBC प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक बेहतर वसूली हुई है।

जसिमें वत्तितीय लेनदारों ने 1,73,359 करोड़ के भरती दावों में से 74,497 करोड़ रुपए की वसूली की।

जाहरि हे IBC ने लेनदार-देनदार संबंध को पूरी तरह से बदल दिया है। कई कंपनियों अपनी कंपनियों पर नयित्रण खोने के डर से अपना बकाया चुकाने के लिये आगे आ रही हैं।

## NCLT

- 1 जून, 2016 को सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) का गठन किया।
- इनका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत किया गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनके लिये अधिसूचना जारी की थी
- NCLT कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य कानून के माध्यम से उसे दी गई शक्तियों के तहत कार्य करेगा
- इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का जज हो या पाँच वर्षों तक इस पद पर रह चुका हो।

## दवालिया और शोधन अक्षमता कोड Insolvency and Bankruptcy Code

- वर्ष 2016 में पारित दवालिया और शोधन अक्षमता कोड का उद्देश्य कॉर्पोरेट और फर्मों तथा व्यक्तियों के दवालिया होने पर समाधान, परसिमापन और शोधन करने के लिये है।
- वधियक में भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों, संयुक्त फर्म और व्यक्तियों के दवालिया होने से जुड़े वषियों का नियमन किया जा सके।

## IBC की सामान्य कार्य प्रक्रिया

- अगर कोई कंपनी करज़ नहीं चुकाती तो IBC के तहत करज़ वसूलने के लिये उस कंपनी को दवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लिये NCLT की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के तैयार होने पर कंपनी को दवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्ज़ा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना करज़ वसूल सकता है।
- IBC में बाज़ार आधारित और समयसीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

## NPA समस्या के समाधान में सहायक IBC

- IBC के अनुसार, किसी ऋणी के दवालिया होने पर एक नशिचति प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी परसिंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- IBC के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत करज़दाता सहमत हों तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिनों के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, जो अपना करज़ नहीं चुका पा रही।
- IBC के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- करज़ न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक नशिचति समयावधि में करज़ चुकता कर दे या स्वयं को दवालिया घोषित करे।

## स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस